

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- जून 06, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-**

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 141 वाहनों का चालान किया गया। व 04 वाहनो से 1200/रूपया शमन शुल्क वसूला गया ।

कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर *मास्क न लगाने वाले कुल- 29 व्यक्तियों से 29000/- रुपये शमन शुल्क* वसूला गया ।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 41 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

***आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

थाना सिंदुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त साहब चौहान पुत्र जगलाल नि0 मोरवन थाना सिंदुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-54/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता गुजराती पत्नि स्व0 रामशंकर नि0 खुरमपुर नर्सरी थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-120/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण **1-** रोहित पुत्र हंसराज नि0 बरगदवा थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-257/21, **2-** विरेन्द्र पुत्र चिन्नी नि0 बोलवामाफी थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-258/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अरमान पुत्र अमीर नि0 कस्बा व थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर स्थानीय पर मु0अ0सं0-118/21 धारा-4/25 आर्म्स अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

***गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण **1-** दिनेश **2-** अनिल **3-** रुपई पुत्रगण विश्वकर्मा, **4-** रामनिलन उर्फ पल्लू पुत्र लालसा नि० गोनहा थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- निल/21 धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***विवेचनाओं का निस्तारण*-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-22 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 05-06-06-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 27 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।